

## चीन-हृदय महासागर क्षेत्रीय मंच की बैठक

### प्रलम्ब के लिये:

हृदय महासागर क्षेत्र, हृदय महासागर रमि एसोसिएशन, SAGAR, IONA, आपदा प्रतिक्रिया बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन।

### मेन्स के लिये:

हृदय महासागर क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव के नहितार्थ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी (China International Development Cooperation Agency- CIDCA) ने चीन-हृदय महासागर क्षेत्रीय मंच की बैठक आयोजित की जिसमें 19 देशों ने भाग लिया। भारत ने इसमें भाग नहीं लिया।

## बैठक की मुख्य वशिषताएँ:

- थीम: शेयर्ड डेवलपमेंट
- भाग लेने वाले देश:
  - इंडोनेशिया, पाकस्तान, म्याँमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, अफगानस्तान, ईरान, ओमान, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, मोजाम्बिक, तंजानिया, सेशेलस, मेडागास्कर, मॉरीशस, जंबूती, ऑस्ट्रेलिया और 3 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि।
  - कथति तौर पर भारत को आमंत्रित नहीं किया गया था।
- समुद्री आपदा रोकथाम और शमन सहयोग तंत्र:
  - चीन ने हृदय महासागर क्षेत्र में चीन तथा अन्य देशों के बीच समुद्री आपदा रोकथाम और शमन सहयोग तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
  - चीन ने ज़रूरतमंद देशों को आवश्यक वित्तीय, सामग्री और तकनीकी सहायता प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की।

## चीन की बैठक में मांग:

- चीन कई देशों में बंदरगाहों और बुनियादी ढाँचे में पर्याप्त निवेश के साथ रणनीतिक हृदय महासागर क्षेत्र में प्रभाव के लिये प्रयास कर रहा है।
- चीन ने पाकस्तान और श्रीलंका सहित कई देशों में बंदरगाहों और बुनियादी ढाँचे के निवेश में पर्याप्त निवेश किया है।
- चीन ने भारत के पश्चिमी तट के विपरीत अरब सागर में पाकस्तान के ग्वादर में बंदरगाह बनाने और मालदीव बुनियादी ढाँचे के निवेश के अलावा 99 साल की लीज पर श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है।

## चुनौतियाँ:

- चीन पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कथति तौर पर बुनियादी ढाँचे के विकास के नाम पर इन देशों में "ऋण कूटनीति (Debt Diplomacy)" में शामिल करने का आरोप लगाया गया है।
- वर्ष 2008 से चीन ने नियमित रूप से अदन की खाड़ी में नौसैनिक युद्धपोतों की टुकड़ी को तैनात किया है और वर्ष 2017 में जंबूती में अपना पहला वदेशी सैन्य अड्डा स्थापित किया है।
- साथ ही भारत की अनुपस्थिति को हृदय महासागर क्षेत्र के राजनीतिकरण की आशंकाओं के बीच क्षेत्र में भारत की पारंपरिक उपस्थिति को चुनौती देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा चीनी वदेश मंत्रालय ने यह खुलासा करने से इनकार कर दिया कि अन्य देशों से कौन-कौन प्रतभागी थे।
  - भारत हृदय महासागर क्षेत्र (IOR) देशों का पारंपरिक भागीदार और समर्थक रहा है।

## IORA में भारत की उपस्थिति:

- इसके अलावा तटीय देशों में प्रमुख संकटों के दौरान पहले उत्तरदाता के रूप में कार्य करने के लिये, भारत नियमित रूप से **हिंदी महासागर रमि एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association- IORA)** और **हिंदी महासागर नौसेना संगोष्ठी (Indian Ocean Navies Symposium- IONS)** जैसे तंत्रों के माध्यम से **क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास (Security and Growth for All in the Region- SAGAR/सागर)** के दृष्टिकोण के तहत हिंदी महासागर तटीय देशों के साथ संलग्न है।
- हिंदी महासागर क्षेत्र में भारत का मज़बूत प्रभाव है जहाँ IORA जैसे भारत समर्थित संगठनों ने मज़बूत जड़ें जमा ली हैं।
- भारत ने क्षेत्रीय समुद्री क्षेत्र में **"समन्वय, सहयोग और साझेदारी"** की अपनी **आधिकारिक नीति** को बढ़ावा देना जारी रखा है।
- **आपदा जोखिम प्रबंधन पर प्राथमिकता वाले क्षेत्र के समन्वयक** के रूप में, भारत ने IORA के लिये दशिया-नरिदेश जारी किये हैं। इसने भागीदारों से सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र में शुरू किये गए **आपदा प्रतिक्रिया बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन** में शामिल होने का भी आग्रह किया है।
- भारत IOR में सूचना के शुद्ध प्रदाता के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है और इस दशिया में उसने IOR के सदस्य देशों **व्योस्तविकि समय संकट की जानकारी के साथ सहायता** करने के लिये गुडग्राम में **सूचना संलयन केंद्र** बनाया है। बांग्लादेश, मॉरीशस, मालदीव, श्रीलंका और सेशेल्स भारत के सूचना समर्थन ढाँचे का हिस्सा हैं।

## हिंदी महासागर रमि एसोसिएशन:

- यह वर्ष 1997 में स्थापित एक क्षेत्रीय मंच है, इसका उद्देश्य सर्वसम्मति-आधारित विकासवादी और गैर-घुसपैठ दृष्टिकोण के माध्यम से समझ तथा पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग का निर्माण और विस्तार करना है।
- IORA में **23 सदस्य देश** और **9 संवाद भागीदार** हैं।
  - **सदस्य:** ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशेल्स, सगिपुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन।
  - **चीन IORA में एक संवाद भागीदार** है।
- IORA सचिवालय **मॉरीशस** में स्थित है।
- यह एसोसिएशन महत्त्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी महासागर दुनिया के कंटेनर जहाज़ों का लगभग आधा, दुनिया के थोक कार्गो यातायात का एक तिहाई और दुनिया के तेल शिपमेंट का दो-तिहाई अकेले वहन करता है।
- यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार और परिवहन की एक जीवन रेखा है यह प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण रखता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. 'क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंदी महासागर रमि संघ इंडियन ओशन रमि एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (IOR\_ARC)' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इसकी स्थापना हाल ही में घटित समुद्री डकैती की घटनाओं और तेल अधिप्लव (आयल स्पिल्स) की दुर्घटनाओं के प्रतिक्रियास्वरूप की गई है।
2. यह एक ऐसी मैत्री है जो केवल समुद्री सुरक्षा हेतु है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

**स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस**